

प्रेस- नोट थाना बेलघाट गोरखपुर दिनांक 08.01.2023

आपरेशन तमंचा 2.0 अभियान के तहत अवैध देशी तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल व मोबाइल के साथ दो अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में होने वाले अपराधो पर रोकथाम/अंकुश लगाये जाने तथा सम्बन्धित अभियुक्तो के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में थानाध्यक्ष बेलघाट की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दो व्यक्तियों को पुलिस हिरासत मे लिया गया। हिरासत मे लिय गए व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर पहले ने अपना नाम 1. गुड्डू कन्नौजिया पुत्र स्व0 अमीचन्द कन्नौजिया निवासी समहुतापुर थाना बेलघाट गोरखपुर व दूसरे ने अपना नाम 2. याघवेन्द्र यादव उर्फ बब्लू यादव पुत्र स्व0 रामदेव यादव निवासी ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर बताया। जामा तलाशी ली गयी तो दोनो अभियुक्तों के के पास से एक अदद मोटर साइकिल टी.वी.एस, दो अदद मोबाइल, एक-एक अदद अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर व एक-एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेलघाट पर मु0अ0सं0 08/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 08.01.2023 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति अवैध असलहे के साथ तेजी से जैती से बेलघाट की तरफ आने वाले है इस सूचना पर विश्वास कर थाना बेलघाट की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों का इंतजार करने लगे कि थोड़ी ही देर में एक मोटरसाइकिल जैती की तरफ से आती दिखाई पड़ी जिसको पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियो से क्रमशः नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उन्होने अपना नाम क्रमशः 1. गुड्डू कन्नौजिया पुत्र स्व0 अमीचन्द कन्नौजिया निवासी समहुतापुर थाना बेलघाट गोरखपुर 2. याघवेन्द्र यादव उर्फ बब्लू यादव पुत्र स्व0 रामदेव यादव निवासी ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर बताया। दोनो अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद मोटर साइकिल टी.वी.एस, दो अदद मोबाइल, एक-एक अदद अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर व एक-एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। थाना बेलघाट पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. गुड्डू कन्नौजिया पुत्र स्व0 अमीचन्द कन्नौजिया निवासी समहुतापुर थाना बेलघाट गोरखपुर।
2. याघवेन्द्र यादव उर्फ बब्लू यादव पुत्र स्व0 रामदेव यादव निवासी ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 08/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेलघाट गोरखपुर

बरामदगी-

1. एक-एक अदद अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर व एक-एक जिन्दा कारतूस .315 बोर
2. एक अदद मोटर साइकिल टी.वी.एस,
3. दो अदद मोबाइल

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 सर्वेश कुमार राय थाना बेलघाट गोरखपुर
2. उ0नि0 विकासनाथ थाना बेलघाट गोरखपुर
3. का0 संग्राम सिंह यादव थाना बेलघाट गोरखपुर
4. का0 देवानन्द चौधरी थाना बेलघाट गोरखपुर